

सानवताका मार्ग-अणुक्रती संघ

अधिकारी

६०
०

[मुनि श्री तुङ्मलजी]

अप्रैल, १९५२

श्रीमती वाल सभा लैन मुस्तकालय
रत्नगढ़ (राजस्थान)

मनुष्य अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा अधिक दुद्धिशाली प्राणी है। उसमें अनेक अवगुण हैं जस्ते, किन्तु उसके पास वह शक्ति भी विद्यमान है जिससे वह अपने समस्त अवगुणोंका स्वयं या किसीके बतानेपर परित्याग कर सकता है। प्रत्येक अवगुण मनुष्यकी महत्ताका कट्टर शत्रु होता है तो मनुष्यको भी प्रत्येक अवगुणका कट्टर शत्रु होना ही चाहिये; जिस दिन ऐसी भावना मनुष्यमें जागृत हो जायेगी उस दिन मनुष्य अपना गुण आप ही होगा। किसीको मार्ग-प्रदर्शन करनेकी आवश्यकता तक नहीं होगी; किन्तु अभी तो ऐसा नहीं है।

आज तो उसमें अवगुण एकत्रित होते जा रहे हैं। गुणको पहचानने और स्वीकार करनेवाले तो बिरले-से ही दिखाई देते हैं। अधिकांश तो अपने अवगुणों को भी गुण मान चैठे हैं। अवगुण और गुणका भेद-ज्ञान लुप्त सा हो गया है। ऐसा लगता है, मानो थोड़े ही दिनोंमें यदि ऐसी परिस्थिति चालू रही तो अवगुण गुण रूपमें और गुण अवगुण रूपमें परिणत हो जायेंगे। किन्तु मेरा विश्वास है, ऐसा हो नहीं सकता, कम-से-कम भारतमें तो कभी नहीं। यह भृषि-भूमि है, इसमें समय-समयपर अनेक महापुरुषोंने तथा कृष्णियोंने अपने जीवनके अमूल्य अनुभवोंसे उपदेशकी गङ्गा बहाई है। यह वह भूमि है, जहाँ जगत्‌की प्रत्येक गुण्ठीका हल निकाला गया है और उत्पथगामी संसारको सत्पथपर लानेका सफल प्रयत्न किया गया है।

यद्यपि आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि यहाँ अनेक प्रकारके अवगुणोंकी अभूतपूर्व वाढ़ आ गई। मध्य, मांस, द्यूत, व्यभिचार, तमाखू आदि व्यसन घटते

नहीं मालूम होते, काला-बाजार मुँह वाये सब कुछ अपनेमें समा देना चाहता है; खाद्य-पदार्थोंकी अनुचित मिलावट मनुष्यको जीवित ही मार देना चाहती है; नरिग्रहकी भावना समुद्रसे भी होड़ लगा रही है; अधिकारकी दुराशा आकाशके भी कहीं ऊपर अपनी आसन जमानेकी टोहमें है; ऐसे समयमें इस पावन धरातलको छेने जघन्य कृत्योंसे दूषित होनेसे बचानेके लिए तीव्रगतिसे प्रतिकार भी प्रारम्भ हो गया है। यह प्रतिकार मानवी वृत्तिसे दानवी वृत्तिका, विरक्षिसे आसक्षिका, संमतासे विषमताका, सन्तोषसे संप्रहका और त्यागसे भोगका प्रतिकार है। इसके उन्नायक आचार्य श्री तुलसी हैं और इसका फल अणुव्रती संघ है।

अणुव्रती क्यों ?

अणुव्रतीका अर्थ होता है—छोटे ब्रतोंको धारनेवाला। ब्रत और छोटे, यह बात सम्भवतः आपको कुछ अखरे, क्योंकि कोई भी ब्रत छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता

है। उसे लेनेवाले व्यक्तिपर कितना दायित्व आ जाता है, इसे सोचनेपर यह जाना जा सकता है कि छोटा कहा जानेवाला ब्रत भी वास्तवमें कितना महान् और कितना दुरुह होता है। किन्तु जब हम महाब्रतकी ओर ध्यान देते हैं तो स्वतः यह समझमें आ जाता है कि छूट सहित लिया गया कोई भी ब्रत महान् होते हुए भी महाब्रतकी कोटिमें नहीं आ सकता। अतः उसका नाम अणुब्रत और उसे स्वीकार करनेवालेका नाम अणुब्रती उपयुक्त ही है।

“सर्वनाशो समुत्पन्ने, अर्धं त्यजति पण्डितः” के नियमसे महाब्रतोंको पाढ़नेमें असर्मर्थ व्यक्ति अणुब्रत तो अवश्य ग्रहण करें। क्योंकि ये गृहस्थ-जीवनके मौलिक नियम हैं, मानवताके उन्नायक हैं। जब तक मानवताकी ओर मानवका ध्यान आकृष्ट नहीं होता, तब तक जीवनकी नाव डाँवाडोल ही रहती है, अणुब्रती बनना अपनी नावके डाँड़को चलाना है, उस पार जानेको अग्रसर होना है, लक्ष्यके निकट पहुंचनेको आगे बढ़ना है। अणुब्रत मनुष्यताकी ओर प्रस्थान करनेवालोंका सरल

मार्ग है, मानवतारूप अणुओंको देखनेका अणु-धीक्षण है। इसपर विवेककी आँख लगाकर इन अणुओंको कोई भी पहचान सकता है, संगृहीत कर सकता है और जीवन-निर्माणकी मूलभित्तिमें प्रयुक्त कर सकता है।

अणुब्रती संघके नियमोंको पढ़कर यह सरलतया अनुभव किया जा सकता है कि मनुष्यने जहाँ-जहाँ मानवतापर आधात किया है, वहाँ-वहाँ ये नियम औषधि का काम करते हुए धायेंका संरोहण करते हैं और चिर-मूर्छित मानवताको पुनः सचेत कर देते हैं।

कैसे निभा सकते हैं ?

कुछ मनुष्य यह आशङ्का करते हैं कि सारा संसार ही जब चोर-वाजार, भ्रष्टाचार और दुर्व्यसनेमें फँसा है तो चन्द मनुष्य अणुब्रती बनकर अपनी सत्यता कैसे निभा सकते हैं ? इसका संक्षेपमें यही उत्तर हो सकता है कि दिक्त तो अस-

[६]

स्त्यता निभानेमें ही आ सकती है, सत्यता निभानेमें नहीं, कठिनता उल्टे पाँप चलनेमें ही हो सकती है, सीधे पाँव चलनेमें नहीं। उचित तथा समान आहारसे रोगका भय कहाँ ? वह तो शक्तिप्रद ही होता है। सत्य स्वयं स्पष्ट होता है अतः उसे सिद्ध करनेके लिए दाँव-पैचोंको आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाशित दीपका अस्तित्व सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रकाशकी आवश्यकता ही क्व होती है ?

सत्यता आत्माका धर्म है, उसके लिए दूसरेका सहारा अपेक्षित नहीं है, दृढ़तापूर्वक अपने निर्णीत मार्गपर चलते रहना ही ध्येय होना चाहिये, जिससे सारी सम्भावित कठिनाइयाँ स्वतः दूर हो जाती हैं। सफलता संख्यापर नहीं, भावनापर निर्भर है। चन्द्र व्यक्ति भी सज्जी भावनासे अणुब्रती बनकर दुनियाँको वह पाठ पढ़ा सकते हैं, जो विस्मृतिके गर्तमें पढ़ा रहा और दुनियाँ उसे बाहर खोजती रही। संसारके प्रायः सभी सुधार थोड़े व्यक्तियोंसे ही प्रारम्भ हुए हैं; अधिक व्यक्ति तो उनके विरोधमें रहे हैं क्योंकि विचारशील और स्वार्थत्यागी मनुष्य अपेक्षाकृत

सदैव थोड़े ही होते हैं। यहाँ हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि अणुब्रतियोंकी संख्या कम रहनी चाहिये, किन्तु यह है कि संख्याको सफलतामापकयन्त्र नहीं मानना चाहिये।

एक वर्षके लिये क्यों ?

एक यह आशंका भी सामने आती है कि जिन व्यक्तियोंने अणुब्रत स्वीकार किये हैं, उन्होंने एक वर्षके लिये ही क्यों किये हैं ? इसके लिये ये कहा जा सकता है कि अनादि कालीन मानवी हुर्वलताओंको हटानेके लिये कुछ समय चाहिए, यद्यपि आत्मामें अनन्त शक्ति विद्यमान है तथापि उसका विश्वास सहसा हरएक नहीं कर सकता, विश्वास करने पर भी उसका प्रयोग करते समय मिमक साभा-विकतया हो ही जाती है। एक दो बार प्रयोग करने पर विश्वास बढ़ जाता है, संकोच दूर हो जाता है और कार्य स्वतः सुगम प्रतीत होने लगता है। अणुब्रती

बननेवाले व्यक्ति जिस बातावरणमें रहे हैं, जैसे संस्कारोंसे संस्कृत हुए हैं, उन्हें देखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनकी यह भिन्नक निष्कारण नहीं है। आचानक भावावेशमें किया गया कार्य सम्भवतः कहीं-कहीं पश्चात्तापका कारण बन सकता है किन्तु समझकर और ठीक देखकर किया गया कार्य शक्तिदायक एवं हर्षोत्पादक होता है, अतः अपुनब्रती एक वर्षमें अपने आपको अच्छी तरहसे कस लेंगे और आगामी अवसर पर जीवन पर्यन्त ब्रत लेंगे, ऐसी सम्भावना है। इनमेंसे कुछ न भी ले फिर भी चिन्ताकी कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म हृदय परिवर्तन चाहता है, उसे द्वावकी आवश्यकता नहीं। द्वावसे लिये गये ब्रत भारभूत होंगे और आत्मासे किये गये ब्रत पूर्ण और कार्यकारी। कितने अवगुण छोड़ने चाहिए और कितने दिनोंके लिए छोड़ने चाहिए, यह सीमा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अवगुण सारे ही त्याज्य हैं और सदैव त्याज्य हैं, किन्तु सारे मनुष्य सारे अवगुण सदाके लिये छोड़ दें, यह सम्भव नहीं है।

—सारे—मनुष्य—सारे—अवगुण छोड़ दें, यह हमारे सामने आदर्श तो होना चाहिए किन्तु आपही नहीं; क्योंकि कुछ मनुष्य कुछ अवगुण छोड़ते हैं तो वह भी बुरा नहीं, अत्युत्तम ही है। इसी प्रकार सदा के लिये छोड़ दें यह भी आपही नहीं होना चाहिए; क्योंकि कुछ दिन के लिए छोड़ना भी उत्तम ही है। र्हा, हमें प्रयास यही करना चाहिए और आशा भी यही करनी चाहिये कि कुछ दिन के लिये छोड़ने वाला सदा के लिये छोड़ने को तंत्र हो और कुछ अवगुण छोड़ने वाला सारे अवगुण छोड़ने की ओर बढ़े; इसी प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति के कम से सारा संसार अवगुणहीन हो जाये। जब तक ऐसा न हो, तब तक प्रयास—अविरल—चालू रखना चाहिये।

एक मनुष्य के एक अवगुण—छोड़ने का अर्थ है—विश्व-महामानव के एक अंग के एक रोग का दूर होना। एक-एक मनुष्य के एक-एक अवगुण को छुड़ाते-छुड़ाते अर्थात् प्रत्येक अंग के प्रत्येक रोग को मिटाते-मिटाते संसार को निरोग बना देना, वस

[१०]


यही अणुव्रती संघका प्रयास है। यह निरोगता एक वर्षके लिए टिकेगी तो सदाचै लिए भी टिक सकेगी, एक वर्षके लिए रोगका दूर होना सदाके लिए दूर होनेका पूर्वलक्षण है और यह शुभ है।

अणुव्रती संघके इस व्यक्ति-विकासके प्रयाससे हमें विश्वास है कि अनेतिकता के गन्दे नालेमें गिरकर कराहती मानवता फिरसे अपने राज्य-सिंहासन मानव—हृदयको अलंकृत करेगी और मानव भी उसकी अर्चना करके अपनेको धन्य समझेगा।

मानवताके पुजारियोंको हम् यह कहना चाहेंगे कि यदि आप खोई हुए मानवताके पुनः दर्शन करना चाहते हैं तो अणुव्रती संघके राजपथ पर आइये; क्योंकि मानवताका सबसे सीधा और उत्तम सार्ग यही है।

अणुब्रत-साहित्य

- अणुयुगमें अणुब्रत
- अणुब्रती संघका नकारात्मक दृष्टिकोण
- भौतिकवाद और अणुब्रती-संघ
- अणुब्रती संघका प्रवेश-द्वार
- विचारकोंकी दृष्टिमें अणुब्रत
- मानवताका मार्ग अणुब्रती संघ
- अणुब्रत-आन्दोलन और उसके प्रणेता, आदि।



आदर्श साहित्य संघ सरदार शहर (राजस्थान)

रैफिल बाट्ट प्रेस ३१, बडतहला, न्डोट, कालान

